

“बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी.2-22-छत्तीसगढ़ गजट / 38 सि. से. भिलाई. दिनांक 30-05-2001.”



पंजीयन क्रमांक  
“छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2013-2015.”

# छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)  
प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 30]

रायपुर, गुरुवार, दिनांक 8 फरवरी 2024 — माघ 19, शक 1945

कार्यालय मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी, छत्तीसगढ़  
शास्त्री चौक, पुराना मंत्रालय परिसर, रायपुर

रायपुर, दिनांक 5 फरवरी 2024

क्र. 01/चार/रा.स.चु./2024/898. — राज्य सभा द्विवार्षिक निर्वाचन — 2024 हेतु लोकप्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 12 के तहत माननीय राष्ट्रपति की अधिसूचना दिनांक 08 फरवरी, 2024 तथा भारत निर्वाचन आयोग नई दिल्ली द्वारा जारी अधिसूचना संख्या 318/रा.स.—मल्ली/2/2024 (1), दिनांक 08 फरवरी, 2024 एवं अधिसूचना संख्या 318/ रा.स.—मल्ली/2/2024 (2), दिनांक 08 फरवरी, 2024 का राज्य के शासकीय राजपत्र के असाधारण अंक में सर्व साधारण की जानकारी हेतु प्रकाशित की जाती है।

हस्ता./—

(रीना बाबासाहेब कंगाले)  
मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी.

## भारत निर्वाचन आयोग

निर्वाचन सदन, अशोक रोड, नई दिल्ली – 110001

नई दिल्ली, दिनांक 08 फरवरी, 2024 — माघ 19, 1945 (शक)

## अधिसूचना

सं. 318/रा.स.-मल्टी/2/2024 (1). - यतः, भारत के राष्ट्रपति ने लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 (1951 का 43) की धारा 12 के अधीन जारी, और तारीख 08 फरवरी, 2024 को भारत के राजपत्र में प्रकाशित अधिसूचना द्वारा नीचे की सारणी के स्तम्भ (1) में विनिर्दिष्ट राज्यों की विधान सभा के प्रत्येक निर्वाचित सदस्यों से यह अपेक्षा की है कि वे उक्त सारणी के स्तम्भ (2) में राज्यों के सामने विनिर्दिष्ट संख्या में सदस्य निर्वाचित कर दें

## सारणी

| क्र. सं. | राज्य         | भरे जाने वाले स्थान |
|----------|---------------|---------------------|
|          | (1)           | (2)                 |
| 1.       | आंध्र प्रदेश  | 03                  |
| 2.       | बिहार         | 06                  |
| 3.       | छत्तीसगढ़     | 01                  |
| 4.       | गुजरात        | 04                  |
| 5.       | हरियाणा       | 01                  |
| 6.       | हिमाचल प्रदेश | 01                  |
| 7.       | कर्नाटक       | 04                  |
| 8.       | मध्य प्रदेश   | 05                  |
| 9.       | महाराष्ट्र    | 06                  |
| 10.      | तेलंगाना      | 03                  |
| 11.      | उत्तर प्रदेश  | 10                  |
| 12.      | उत्तराखण्ड    | 01                  |
| 13.      | पश्चिम बंगाल  | 05                  |
| 14.      | ओडिशा         | 03                  |
| 15.      | राजस्थान      | 03                  |

अतः, अब उक्त अधिनियम की धारा 39 की उप-धारा (1) और धारा 56 के अनुसरण में निर्वाचन आयोग एतद्द्वारा:-

(अ) उक्त निर्वाचन के संबंध में निम्नलिखित निर्धारित करता है:-

- |     |  |                                |
|-----|--|--------------------------------|
| (क) | नाम निर्देशित करने की अन्तिम तारीख                   | - 15 फरवरी, 2024 (गुरुवार)     |
| (ख) | नाम निर्देशनों की संविक्षा की तारीख                  | - 16 फरवरी, 2024 (शुक्रवार)    |
| (ग) | अभ्यर्थिताएं वापस लेने की अंतिम तारीख                | - 20 फरवरी, 2024 (मंगलवार)     |
| (घ) | वह तारीख, जिसको यदि आवश्यक हुआ तो मतदान होगा,        | - 27 फरवरी, 2024 (मंगलवार), और |
| (ङ) | वह तारीख जिससे पूर्व निर्वाचन सम्पन्न करा लिया जाएगा | - 29 फरवरी, 2024 (गुरुवार), और |

(आ) 09:00 बजे पूर्वाह्न से 04:00 बजे अपराह्न तक का समय, ऐसे समय के रूप में नियत करता है जिसके दौरान यदि आवश्यक हुआ तो, उक्त विनिर्दिष्ट तारीख को, मतदान होगा।

आदेश से,

हस्ताक्षर-

(सुमन कुमार दास)

सचिव

भारत निर्वाचन आयोग

**ELECTION COMMISSION OF INDIA**  
Nirvachan Sadan, Ashoka Road, New Delhi-110001

New Delhi, Dated 08th February, 2024 — Magha 19, 1945 (Saka)

**NOTIFICATION**

No. 318/CS-Multi/2/2024(1): - Whereas, the President of India has, by notification issued under Section 12 of the Representation of the People Act, 1951(43 of 1951) and published in the Gazette of India on 08<sup>th</sup> February, 2024 been pleased to call upon the elected members of each of the Legislative Assemblies of the States, specified in column (1) of the TABLE below, to elect to the Council of States, the number of member(s) specified against that State in column (2) of the said TABLE:

**TABLE**

| S.No. | Name of State    | No. of members retiring |
|-------|------------------|-------------------------|
|       | (1)              | (2)                     |
| 1.    | Andhra Pradesh   | 3                       |
| 2.    | Bihar            | 6                       |
| 3.    | Chhattisgarh     | 1                       |
| 4.    | Gujarat          | 4                       |
| 5.    | Haryana          | 1                       |
| 6.    | Himachal Pradesh | 1                       |
| 7.    | Karnataka        | 4                       |
| 8.    | Madhya Pradesh   | 5                       |
| 9.    | Maharashtra      | 6                       |
| 10.   | Telangana        | 3                       |
| 11.   | Uttar Pradesh    | 10                      |
| 12.   | Uttarakhand      | 1                       |
| 13.   | West Bengal      | 5                       |
| 14.   | Odisha           | 3                       |
| 15.   | Rajasthan        | 3                       |

Now, therefore, in pursuance of sub-section (1) of Section 39 and Section 56 of the said Act, the Election Commission hereby-

- (A) appoints, with respect to the said election;
- the 15th February, 2024 (Thursday), as the last date for making nominations;
  - the 16th February, 2024 (Friday), as the date for the scrutiny of the nominations;
  - the 20th February, 2024 (Tuesday), as the last date for the withdrawal of candidatures;
  - the 27th February, 2024 (Tuesday), as the date on which a poll shall, if necessary, be taken; and
  - the 29th February, 2024 (Thursday), as the date before which the election shall be completed; and
- (B) fixes the hours from 09:00 am to 04:00 pm, as the hours during which the poll shall, if necessary, be taken in all the above-mentioned States on the date specified above for the election.

By order,

Sd/-

**(Suman Kumar Das)**  
Secretary to the  
Election Commission of India

## भारत निर्वाचन आयोग

निर्वाचन सदन, अशोक रोड, नई दिल्ली – 110001

नई दिल्ली, दिनांक: 08 फरवरी, 2024 — माघ 19, 1945 (शक)

## अधिसूचना

सं. 318/रा.स.-मल्टी/2/2024 (2). - लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 (1951 का 43) की धारा 21 के अनुसरण में एवं उक्त अधिनियम की धारा 22 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, निर्वाचन आयोग, नीचे की सारणी के स्तम्भ (1) में विनिर्दिष्ट प्रत्येक राज्य सरकार के परामर्श से 08 फरवरी, 2024 को भारत के राजपत्र में प्रकाशित माननीय राष्ट्रपति की अधिसूचना के अनुसरण में उस राज्यS में राज्य सभा के लिए होने वाले द्विवार्षिक निर्वाचन के संबंध में एतद्वारा-

- (i) नीचे की सारणी के स्तम्भ (2) में विनिर्दिष्ट अधिकारी को रिटर्निंग ऑफिसर के रूप में पदाभिहित करता है, तथा  
(ii) उक्त सारणी के स्तम्भ (3) में विनिर्दिष्ट अधिकारी(यों) को रिटर्निंग ऑफिसर के कृत्यों के निष्पादन में सहायता के लिए, सहायक रिटर्निंग ऑफिसर के रूप में नियुक्त करता है;

## सारणी

| राज्य         | रिटर्निंग ऑफिसर के रूप में पदाभिहित अधिकारी   | सहायक रिटर्निंग ऑफिसर के रूप में नियुक्त अधिकारी   |
|---------------|---|--|
| (1)           | (2)   | (3)  |
| आंध्र प्रदेश  | श्री एम. विजय राजू, संयुक्त सचिव, आंध्र प्रदेश राज्य विधानमंडल                      | श्री पी. वी. सुब्बाय रेड्डी, संयुक्त सचिव, आंध्र प्रदेश राज्य विधान मंडल   |
| बिहार         | श्री राज कुमार, सचिव, बिहार विधान सभा   | श्री असीम कुमार, निदेशक, बिहार विधान सभा   |
| छत्तीसगढ़     | श्री दिनेश शर्मा, सचिव, छत्ती सगढ़ विधान सभा  | श्री दिनेश त्रिवेदी, उप सचिव, छत्तीसगढ़ विधान सभा  |
| गुजरात        | श्रीमती रीटा महेता, संयुक्त सचिव, गुजरात विधानमंडल सचिवालय                          | श्री एम. एच. क. रंगिया, उप सचिव, गुजरात विधानमंडल सचिवालय  |
| हरियाणा       | श्री साकेत कुमार, भा.प्र.से., प्रबंध निदेशक, उत्तर हरियाणा बिजली वितरण निगम लिमिटेड | श्री गौरव गोयल, उप सचिव, हरियाणा विधान सभा सचिवालय   |
| हिमाचल प्रदेश | श्री यश पॉल शर्मा, भा.प्र.से., सचिव, हिमाचल प्रदेश विधान सभा                        | श्री जितेंद्र सिंह कंवर, अवर सचिव (विधान) हिमाचल प्रदेश विधान सभा  |
| कर्नाटक       | श्रीमती एम.के. विशालाक्षी सचिव, कर्नाटक विधान सभा                                   | श्री बी.एस. महालिंगेश, निदेशक, कर्नाटक विधान सभा   |
| मध्य प्रदेश   | श्री अवधेश प्रताप सिंह, प्रमुख सचिव, मध्य प्रदेश विधान सभा सचिवालय                  | श्री भगवतदीन सिंह परस्ते, अपर सचिव, मध्य प्रदेश विधान सभा सचिवालय  |
| महाराष्ट्र    | श्री जितेंद्र भोले, सचिव (1) प्रभारी, महाराष्ट्र विधान मंडल सचिवालय                 | 1. श्री ऋतुराज, ज. कुडतरकर, उप सचिव, महाराष्ट्र विधानमंडल सचिवालय<br>2. श्रीमती पूनम हे. ढगे, उप सचिव, महाराष्ट्र विधान मंडल सचिवालय |
| राजस्थान      | श्री महावीर प्रसाद शर्मा, प्रधान सचिव, राजस्थान विधान सभा                           | श्री सुरेश चंद पारीक, सहायक सचिव [सामान्य] राजस्थान विधान सभा  |
| तेलंगाना      | श्री चे. उपेन्द्र रेड्डी, संयुक्त सचिव, तेलंगाना राज्य विधान मंडल                   | श्री ए. सुधाकर, सहायक सचिव, तेलंगाना राज्य विधान मंडल  |
| उत्तर प्रदेश  | श्री बृज भूषण दुबे, विशेष सचिव, विधान सभा, उत्तर प्रदेश, लखनऊ                       | श्री राम औतार सिंह, संयुक्त सचिव, विधान सभा, उत्तर प्रदेश, लखनऊ  |
| उत्तराखंड     | श्री चन्द्र मोहन गोस्वामी, संयुक्त सचिव, उत्तराखंड विधान सभा                        | श्री मयंक सिंघल, वरिष्ठ प्रोटोकॉल अधिकारी, उत्तराखंड विधान सभा   |
| पश्चिम बंगाल  | श्री सुकुमार रे, प्रधान सचिव, पश्चिम बंगाल विधान सभा                                | श्रीमती स्वस्ति आचार्य, संयुक्त सचिव-सह-समिति अधिकारी, पश्चिम बंगाल विधान सभा  |
| ओडिशा         | श्री अबनीकांत पटनायक, भा.प्र.से., सरकार के अपर सचिव, इस्पात एवं खान विभाग           | श्री बिद्याधर माझी, उप सचिव, ओडिशा विधान सभा   |

आदेश से,

हस्ताक्षर-

(सुमन कुमार दास)

सचिव

भारत निर्वाचन आयोग

**ELECTION COMMISSION OF INDIA**  
Nirvachan Sadan, Ashoka Road, New Delhi-110001

New Delhi, Dated 08th February, 2024 — Magha 19, 1945 (Saka)

**NOTIFICATION**

No. 318/CS-Multi/2/2024(2). - In pursuance of Section 21, and in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 22, of the Representation of the People Act, 1951 (43 of 1951), the Election Commission, in consultation with the Government of each of the States, specified in the column (1) of the TABLE below, hereby-

- (i) designates the officer, specified in the corresponding entry in column (2) of the said TABLE to be the Returning Officer; and
- (ii) appoints the officer(s), specified in the corresponding entry in column (3) of the said TABLE, to be the Assistant Returning Officer(s) to assist the Returning Officer in the performance of his/her functions;

in respect of the biennial election to the Council of States, to be held in that State in pursuance of the notification of the President of India, published in the Gazette of India on 08th February, 2024: -

**TABLE**

| States<br>(1)    | Returning Officer<br>(2)   | Assistant Returning Officer<br>(3)  |
|------------------|--|---|
| Andhra Pradesh   | Sri M. Vijaya Raju, Joint Secretary to Andhra Pradesh State Legislature                  | Sri P.V. Subba Reddy, Joint Secretary to Andhra Pradesh State Legislature   |
| Bihar            | Sh. Raj Kumar, Secretary, Bihar Legislative Assembly                                     | Sh. Asim Kumar, Director, Bihar Legislative Assembly  |
| Chhattisgarh     | Sh. Dinesh Sharma, Secretary, Chhattisgarh Legislative Assembly                          | Sh. Dinesh Trivedi, Deputy Secretary, Chhattisgarh Legislative Assembly   |
| Gujarat          | Mrs. Reeta Mehta, Joint Secretary, Gujarat Legislature Secretariat                       | Mr. M. H. Karangiya, Deputy Secretary, Gujarat Legislature Secretariat  |
| Haryana          | Sh. Saket Kumar, IAS, Managing Director, Uttar Haryana Bijli Vitran Nigam Ltd.           | Sh. Gaurav Goyal, Deputy Secretary, Haryana Vidhan Sabha Secretariat  |
| Himachal Pradesh | Shri Yash Paul Sharma, IAS, Secretary, Himachal Pradesh Vidhan Sabha                     | Sh. Jitender Singh Kanwar, Under Secretary (Legislation) Himachal Pradesh Vidhan Sabha  |
| Karnataka        | Smt. M.K. Vishalakshi, Secretary, Karnataka Legislative Assembly                         | Shri. B.S. Mahalingesh, Director, Karnataka Legislative Assembly  |
| Madhya Pradesh   | Shri Awadhesh Pratap Singh, Principal Secretary, Madhya Pradesh Vidhan Sabha Secretariat | Sri Bhagwatdeen Singh Paraste, Additional Secretary, Madhya Pradesh Vidhan Sabha Secretariat  |
| Maharashtra      | Sh. Jitendra Bhole, Secretary (1) Incharge, Maharashtra Legislature Secretariat          | 1. Shri Ruturaj J. Kudtarkar, Deputy Secretary, Maharashtra Legislature Secretariat<br>2. Smt. Poonam H. Dhage, Deputy Secretary, Maharashtra Legislature Secretariat |
| Rajasthan        | Shri Mahaveer Prasad Sharma, Principal Secretary, Rajasthan Legislative Assembly         | Shri Suresh Chand Pareek, Assistant Secretary [General], Rajasthan Legislative Assembly   |
| Telangana        | Sri Ch Upender Reddy, Joint Secretary, Telangana State Legislature                       | Sri A Sudhakar, Assistant Secretary, Telangana State Legislature  |
| Uttar Pradesh    | Sri Brij Bhushan Dubey, Special Secretary, Legislative Assembly, Uttar Pradesh, Lucknow  | Sri Ram Autar Singh, Joint Secretary, Legislative Assembly, Uttar Pradesh, Lucknow  |

| (1)         | (2)  | (3)  |
|-------------|--|--|
| Uttarakhand | Shri Chandra Mohan Goswami, Joint Secretary, Uttarakhand Legislative Assembly                | Shri Mayank Singhal, Senior Protocol Officer, Uttarakhand Legislative Assembly               |
| West Bengal | Shri Sukumar Ray, Principal Secretary, West Bengal Legislative Assembly                      | Smt. Swasti Acharya, Joint Secretary-cum-Committee Officer, West Bengal Legislative Assembly |
| Odisha      | Shri Abanikanta Pattanaik, IAS, Additional Secretary to Government, Steel & Mines Department | Sri Bidyadhar Majhi, Deputy Secretary, Odisha Legislative Assembly                           |

By order,

Sd/-

**(Suman Kumar Das)**  
Secretary to the  
Election Commission of India